



SEE MORE JESUS • WANTTOSEEMORE.COM

शक्तिशाली परमेश्वर — स्ट्रॉग्स नंबरों साहित इक्क KJV बाइबल अध्ययन

यीशु बैतलहम थमां पैहें कुण था — बहुवचन आवाज़, यहोवा दा दूत, इसहाक उप्पर लक्कड़
मूलभूत बाइबली सिद्धांत — यीशु मसीह दा सुसमाचार

ओपनिंग वर्ड

एह हिस्सा पुच्छदा ऐ कि यीशु कुण ऐ, सृष्टि थमां शुरू करदे होई, जित्थें परमेश्वर आखदा ऐ, "आओ, अस्सां मनुक्ख गी अपणे रूपे च बणाईए।" एह उस्से गी चलदा ऐ जेहगी प्रभुरा दूत आखेआ गेआ, जिस्सा लोकें आमने-सामने मिली परमेश्वर आखेआ। एह उस लक्कड़ी उप्पर मुक्कदा ऐ जेह इसहाके उप्पर रखी गई, इब्राहिमा दा इक्कल्ला पुतर जिस्सा ओह प्यार करदा ही। हर जवाब बाइबले थमांही, बाइबले दे अपणे शब्दे च आन्दा ऐ।

ऐ अध्ययन जवाब दिते तिन सवाल:

1. जेकर परमेश्वर इक्क ऐ, तां उत्पत्ति 1:26 च बोलणे आळा "अस्सी" कुण ऐ?
2. प्रभु दा दूत कुण है, जिसने माणुएं आमने-सामने मिली के परमेश्वर बोलाया?
3. इसहाक, जेहड़ा इक्को पुतर था, उसदे उप्पर रखी लक्कड़ी केहदी तरफ इशारा करदी थी?

आरंभिक आधार

Isaiah 9:6

एक बच्चा जमेआ + एक पुत्र दित्ता गेआ --> उसदा नां महाबली परमेश्वर कुहेआ जाणा।

यीशु दे जन्म थमां सत्त सौ साल पैह्ले, इक्क नबिये लिखेआ था जे एह बच्चा शक्तिशाली परमेश्वर आखेआ जाहसी। बाल यीशु इक्क चारे आह्ले खोर च पेआ था। आयत गी हौले-हौले पढ़ो। एह आयतां इस अध्ययन दा सारा संदेश दस्सदियां न।

A. वो परमेश्वर जिसने बोलेआ "आओ अस्सां" — एक परमेश्वर, कने इक्कतो जादा बोलणे बाळे

A1. Genesis 1:26

आओ आसां अपणी सूरता च, अपणे रूपे मुताबिक मनुक्खे न बणाइए --> तां परमेश्वरे मनुक्खे न अपणी सूरता च रचा।

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 1:26 ते उत्पत्ति 1:27 गी कठे पढ़ो। इनां दो आयतां बिचली फर्क गी नरम नी करो। उत्पत्ति 1:26 च "अस्सां" ते "साड़े" लिखेआ ऐ। उत्पत्ति 1:27 च "अपने रूप" ते "परमेश्वरे बणाया" लिखेआ ऐ, दोनों एकवचन। बाइबल दोनों आयतां गी बिना कुसै माफी दे कठे रखदी ऐ। बाइबल सिर्फ

दोनों गल्लां गी बयान करदी ऐ।)

A2. Genesis 3:22

मनुख असां च इक जनेा बणी गया ऐ, भला कने बुरा जाणने तांई।

A3. Genesis 11:7

आओ अस हेठ जाइये + उंअद्दी बोली गड़बड़ करिये।

A4. Isaiah 6:8

मैं कीह्दे भेजां + असां लेइ कुण जाहलो?

(मेरे निजी विचार: यशायाह 6:8 गे ध्यान कत्रै तक्कल। यशायाह 6:8 च एक्खे वाक्य च दोनु रूप आन: "मीं केहड़ा भेजूं" ते "साढ़े लेइयै कुण जाग।" उएई बोलणे आळा एकवचन ते बहुवचन रूप कट्टे बरतदा। एह लिखणे दी गलती नि। एह नि कि परमेश्वर अपने आपे गी दस्सने लेइ बहुवचन शब्द बरतदा। एह्दे जो पैटर्न बाइबल दियां भित्री-भित्री किताबां च, कई सदियां तगर, बड़ी बारी होंदा।)

A5. Deuteronomy 6:4

सुण, हे इस्राएल: प्रभु म्हाड़ा परमेश्वर इक्को प्रभु ऐ।

(मेरे निजी विचार: व्यवस्था विवरण 6:4 पूरे अध्ययने जो नियंत्रित करदा। इक्को परमेश्वर ऐ। दो परमेश्वर नीं न। तीन परमेश्वर नीं न। बड़े परमेश्वर नीं न। इस अध्ययने दा कोई बी आयत जेहड़ा दूई परमेश्वर दी गल्ल दस्सी करदी ऐ, ओ गलत पढ़ी गई। व्यवस्था विवरण 6:4 इसदी परख ऐ। इस आयते च "इक" आस्तै जेहड़ा इब्रानी शब्द इस्तेमाल होया, उस पर ध्यान देओ। ओ शब्द ऐ इकाद। इकाद ओई शब्द ऐ जेहड़ा तद इस्तेमाल होंदा जिसलै संज्ञा ते सवेरे गी इक्को दिन आखेआ गोआ, हालांकि दिने दे दो हिस्से होंदे न। इकाद ओई शब्द ऐ जेहड़ा तद इस्तेमाल होंदा जिसलै मर्द ते उंदी घरवाली गी इक्को शरीर आखेआ गोआ, हालांकि मर्द ते घरवाली दो जणे होंदे न। बाइबले "इक" आस्तै ओ शब्द चुनेआ जेहड़ा अपने अंदर इक्के थमां जादा जणे गी थां देंदा ऐ। फिरी उत्पत्ति 1:26 च परमेश्वर आखदा दर्ज ऐ "आओ अस्सां...")

A6. Isaiah 45:5

मैं ई प्रभु आं + होर कोई नीं + मेरे बगैर कोई परमेश्वर नीं।

(मेरे निजी विचार: यशायाह 45:5 इस सच्चाईया दूई पासा गी बोलदा। ऐ अध्ययन यशायाह 45:5 कने बचणा नि करग। परमेश्वर साफ-साफ बोलदा जे उसदे अलावा कोई होर परमेश्वर नि। इस अध्ययन गी इन पन्नेआं दे बाकी हिस्सेआं च जो कुछ बी मिलग, से कदी बी दूजा परमेश्वर नि जोड़ी सकदा। ऐ अध्ययन असल च जो लम्भग, से दूजे परमेश्वरा थमां अजीब कने बेहतर ऐ। ऐ अध्ययन इक परमेश्वर गी लोकां आगे अपने आपे गी जाणू करांदे होई लम्भग।)

B. सुआमी दा दूत आखेआ गेआ जेहड़ा — जेहड़ा परमेश्वर बी आखेआ गेआ

इब्रानी शब्द जिसदा अनुवाद "स्वर्गदूत" कीता गेआ ऐ, ओह ऐ मलाक (H4397)। मलाक दा मतलब ऐ ओह जेड़ा भेजेआ गेआ होवे। मलाक इस भेजे गेए बंदे दे कम्म जो दस्सदा ऐ, ओस बंदे दी प्रकृति जो नई। हेठ दित्ते गे बयाने च ध्यान दिओ जि परमेश्वर इस खास भेजे गेए बंदे कत्रै की करदा ऐ।

B1. हागर उजाड़े मां — उसने उसदा नां रख्या

Genesis 16:7

सुआमी दे दूत ने आखेआ, मैं तेरा बीज बड़ी हद तगर बधांगा।

Genesis 16:13

उन्ने यहोवा रा नां, जिसने उसने गल्ल कीती, धरेआ, तूं परमेश्वर मिन्जो दिखदा ऐं।

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 16 च दो गल्लां पाठके गी रुकाणियां चाहिदियां। पैहली, जिसगी "यहोवा दा दूत" बोलेआ गेआ ऐ, ओह बोलदा ऐ "मैं तेरे बीजा गी बधाई देसां।" यहोवा दा दूत एह नि बोलदा जे "यहोवा तेरे बीजा गी बधाई देसी।" यहोवा दा दूत उएह बणी बोलदा ऐ जेहड़ा एह बधाणे आळा कम्म करा करदा ऐ। दूई गल्ल, बाइबल दा पाठ आपू, हाजिरा दी राय नि, इस यहोवा दे दूता गी "यहोवा जेहड़ा उसदे कत्रै गल्ल करदा हा" बोलदा ऐ। हाजिरा इसी शख्सा गी "तूं परमेश्वर" बोलदी ऐ। उत्पत्ति दी किताबा दा लिखणे आळा हाजिरा कत्रै सहमत ऐ।)

B2. इसहाक उप्पर हत्थ — सह्र अपनी आपे री कसम खादा

Genesis 22:11

किउंकि तू अपने पुत्तर, अपने इक्को पुत्तर, मेरे कोला नीं रोकेआ।

Genesis 22:15

म्हारे आपने कसम खादी ऐ, प्रभु फरमांदा ऐ --> तेरे बीजा च धरतिया दे सारे राष्ट्र आशीर्वादत होणगे।

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 22:11-18 दे दो वाक्य उप्पर सोचा। पैह्ला वाक्य ऐ "तू अपने पुत्तरे जो मैथमां नीं रोकेआ।" इब्राहीम अपने पुत्तरे जो परमेश्वरे जो चढाणा लगेआ था। इस वाक्य दा बोलने आळा बोलदा ऐ जे पुत्तर बोलने आळे थमां नीं रोकेआ गेआ। दूई वाक्य ऐ "मीं अपने आपे दी कसम खादी ऐ, यहोवा फरमांदा ऐ।" पुराणे बखते इक्क माणू अपने आपे थमां बड्डे किसी दी कसम खांदा था। इक्क बणाई राखी दूत, जेहड़ा सिर्फ संदेश देंदा ऐ, अपने आपे दी

कसम नीं खांदा। इक्क बणाई राखी दूत परमेश्वरे दे नेमे दे नामे कन्नै कसम नीं दस्तखत करदा। इब्रानियां 6:13 इस दा कारण दस्सदा ऐ। इब्रानियां 6:13 बोलदा ऐ परमेश्वरे अपने आपे दी कसम खादी। इब्रानियां 6:13 कारण दस्सदा ऐ: "कीजे उस थमां बड्डा कोई नीं था जिस दी कसम खा सके।"

B3. याकूब इक मर्द कन्नै कुशती लड़दा ऐ — ते उस जगह दा नां "परमेश्वर दा मूँह" रक्खदा ऐ

Genesis 32:24

ओत्थु इक मैनु उसदे कन्नै घुलेआ --> मे तुगी नेई छड्डणा, जदू तगर तूं मिगी आशीर्वाद नेई दिन्दा।

Genesis 32:28

इक राजकुमारा दे रूपे च तू परमेश्वरे कन्नै शक्ति रक्खदा है --> मीं परमेश्वरे जो आमने-सामने दिख्या, कने मेरी जिन्दगी बची गी।

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 32 दा पाठ एस बंदे गी मनुक्ख बोलदा ऐ। एह मनुक्ख जेहड़ा याकूब कन्नै कुशती लड़दा ऐ, बोलदा ऐ जे याकूब गी परमेश्वर कन्नै तागत ऐ। याकूब उस जगह गी "परमेश्वर दा मूँह" नां दिन्दा ऐ। याकूब बोलदा ऐ जे उसदी जिन्दगी बच गई। याकूब एस मनुक्ख थमां नां पुच्छदा ऐ। याकूब गी कोई नां नेई मिलदा, सिर्फ इक सवाल वापस मिलदा ऐ। एह बिना जवाबे आळा सवाल याद रक्खो। एहदो जिह्वा ई सवाल फेरी उठदा ऐ, बाइबले दिये इक होरि किताबे च, सैकड़ साला बाद।)

B4. सह बूठी जेही बळदी थी — सह फरिश्ता जो मीं आं ऐ

Exodus 3:2

प्रभुए दा दूत अगनि दिया लौआ च दिखेआ --> परमेश्वरे झाड़िया दे बिच्चा थमां उसी हाक मारी।

Exodus 3:14

मीं आं जो मीं आं --> मीं आं ऐ मिगी तुसां गी भेजेआ ऐ।

(मेरे निजी विचार: निर्गमन 3:2 च लिखेआ छ कि प्रभुए दा दूत। निर्गमन 3:4 च लिखेआ छ कि प्रभु, ते परमेश्वर। सैई झाड़ी, सैई अग्नी, ते सैई आवाज़ दुऐ आयतें च दिखदी छ, चार आयतें दे फासले पर। बाइबल इस गल्लां जो कदी विरोधाभास नीं मन्नदी। इसी आवाज़े फिरी सै नां दित्ता जेहड़ा इस्राएल हमेशा लेई चुक्केआ रौहणा छ: मैं जेहड़ा हां सोई हां।)

B5. मानोह ते उंदी घरवाली — सैह नां जेड़ा अद्भुत ऐ

Judges 13:3

प्रभु दे दूते जनानिया गी दर्शन दित्ता --> तू गर्भवती होणा ते इक पुत्तर जामणा।

Judges 13:17

तू मेरे नावें दे बारे च ऐसे कजो पुछदा हैं, जिसलू ओह गुप्त ऐ?

Judges 13:20

प्रभुए दा दूत जगगी दी ज्वाला च ऊप्पर गया --> असां जरूर मरगे, कीजे असां परमेश्वर गी दिट्ठा ऐ।

(मेरे निजी विचार: न्यायियां 13 च तिन गल्लां खास दिखेंदियां न। मानोह नां पुच्छेआ, ठीक जियां याकूबे उत्पत्ति 32 च पुच्छेआ था। मानोहा जो फिरी नां नी दस्सेआ गेआ, इस बरी इक कारण दस्सी करी। तेस कारण ताई दितेआ इब्रानी शब्द pily (H6383) ऐ। KJV च pily जो "secret" (गुप्त) करी अनुवाद कीता गेआ। Pily दा मतलब ऐ जो जाणने ताई बड़ा अनोखा ऐ। Pily उसी जड़ शा औंदा ऐ जियां pele (H6382), जेहड़ा शब्द यशायाह 9:6 च "Wonderful" (अद्भुत) करी अनुवाद कीता गेआ, जित्थे सादे ताई जन्मे बाळके दा नां रक्खेआ गेआ ऐ। एहो यहोवा दा दूत फिरी वेदी दी लाटा च उप्पर चली जांदा ऐ। मानोहा दा आपणा निर्णय एह नी ऐ कि "असां इक दूत तक्केआ ऐ।" मानोहा दा निर्णय ऐ कि "असां परमेश्वर तक्केआ ऐ।")

B6. यरीहो दे बाहर सेनापति — पूजया गया, कने जुत्ते लाहे

Joshua 5:13

यहोशू अपने मुँह पर धरतिये पर पैई गेआ, ते पूजा कीती --> अपने पैरां थमां अपनी जुत्ती लाहा; कीजे जिस जगहा पर तू खड़ोता है, से पवित्र ऐ।

बख्खरा नजरिया, इक्को दृश्य — दो मर्दे गी अपने जूते लाहणे गी आखेआ गेआ

Exodus 3:5

अपणे पैरां तूं जुत्ती लाहदे, कीजे जित्थू तूं खड़ोता है उ पवित्र धरती है।

(मेरे निजी विचार: उएई हुक्म, लगभग उएई शब्दें च, दो भिन्ने भिन्ने बंदेयां गी, सैकड़ें बरसां दे फर्क कन्नै दित्ता गेदा। झाड़ी कोल, हुक्म उस आवाज़ शा औंदा जिसगी बाइबल दा पाठ प्रभु ते परमेश्वर आखदा। यरीहो शैहर शा बाहर, हुक्म एक्के बंदे शा औंदा जेहड़ा हत्थे च तलवार लेइयै खड़ोतेरा। यरीहो शा बाहर आळा एह बंदा यहोशू गी अपने मुँह भारे पेइयै अपनी पूजा करने दिन्दा। यरीहो शा बाहर आळा एह बंदा यहोशू गी अपनी पूजा करने शा नि रोकदा। इसदी तुलना उस कम्मै कन्नै करो जेहड़ा असली बणाया गेदा स्वर्गदूत तां करदा जिसलै कोई बंदा उस स्वर्गदूत दी पूजा करने दी कोशिश करदा। स्वर्गदूत आखदा, "मैं तेरे कन्नै दा सेवक ओं" (प्रकाशितवाक्य 19:10)। स्वर्गदूत आखदा, "परमेश्वर दी पूजा करो" (प्रकाशितवाक्य 22:9)। यहूना दो बारी स्वर्गदूत दी पूजा करने दी कोशिश कीती। स्वर्गदूत दो बारी यहूना दी पूजा गी नकारेआ। यरीहो शा बाहर यहोशू दी पूजा गी कुसै नि नकारेआ।)

B7. हुण नमां नियम इक बड़ी सफा गल्ल आखदा ऐ

यूहन्ना 1:18 परमेशर केन्वे कधी भी नई लावरो, पन तैसेरू अक्के मट्ठू (यीशु) जैन बाजी परमेशररे कुम्मे मां आए, तैन्ने असन परमेशर हिरावा।” [G1834 exegeomai ■] [G3439 monogenes ■]

किसी माणुऐ कदी परमेश्वरे जो नीं दिट्ठा --> इकलौते पुत्तरे उसजो प्रगट कीता।

यूहन्ना 5:37 ते बाजी जैने अवं भेजोरोई तैने मेरी गवाही दित्तोरीए, तुसेई न कधी तैसेरी आवाज़ शुनोरी, ते न तै आमने सामने लोरोए।

तुसेई न कधी तैसेरी आवाज़ शुनोरी, ते न तै आमने सामने लोरोए.

1 तीमुथियुस 6:16 सिर्फ तैए हमेशा जीतो रहते, ते तै तैस महिमा बैली लोई मां रहते जैस कां कोई न एज्जी बटे। तैसेरी आदर ते शक्ति हमेशा राली। आमीन।

उस चानने च रौहदा जिसदे कोल कोई नी जाई सकदा --> जिसजो कदी कीसे नी दिट्ठा, ते ना ई कोई दिख सकदा ऐ।

हुण बाइबले दे दोऐं हिस्सें न बगल-बगल रखखो ते दोऐं हिस्सें न रळाइयां पढ़ो।

पुराणे नियमा च बार-बार लिखेआ ऐ जे लोकें इस व्यक्तिया गी दिट्ठा, इस कन्नै गल्लां कीतियां, इसदे सामणे खादा, इस कन्नै कुशती लड़ी, ते फिर बी जिन्दे रए।

नमे नियमे च साफ-साफ, ते तित्त बारी दस्सेआ गेआ ऐ जे कुसी बी परमेश्वर पिता गी कदी नई दिट्ठा, ते कोई बी परमेश्वर पिता गी नई दिख सकदा।

दोनों बयान सच ऐन। पुराने नियम च लोकां ऐ जेहड़ा व्यक्ति दिखेया, ते पिता जिसने लोक कदी नीं दिखी सके, इस करी इक ही व्यक्ति नीं ऐन। यूहन्ना दस्सदा ऐ जे दिखेआ गेआ व्यक्ति कुण ऐ। यूहन्ना बोलदा ऐ जे दिखेआ गेआ व्यक्ति इकलौता पुत्र ऐ, जेहड़ा पुत्र पिता दी गोद च ऐ। यूहन्ना बोलदा ऐ जे इकलौते पुत्रे ने परमेश्वर पिता जो बाहर लयाआ ऐ जित्यै परमेश्वर पिता जो दिखेआ जाई सकदा।

[उम्रे नेजे राए — एिक एी उम्रे एिह गॉलु अलॅग उँर पठ नष्टीं घेएलएी]

(मेरे निजी विचार: इत्यै सावधान ते ईमानदार रौह, क्युँकि इत्यै गी ही थाह जित्यै कोई बंदा बाइबल च कुछ जोड़ना शुरू करी सकदा। जेह सीधा दस्सेआ गेआ है: पुराना नियम दा पाठ आपू ही इस भेजे गए बंदे गी प्रभु ते परमेश्वर बोलदा, ते जेह लोक इस भेजे गए बंदे गी मिले उन्हां बी एहई गल्ल बोली। एह हिस्सा कोई सिट्ठा नीं है। एह हिस्सा जेह वाक्य बोलदन सै ही है। जेह आयतां गी जोड़ी करी पुज्जेआ जांदा है: कि एह खास दिखने आळा बंदा खास करी पुत्र ही है। कोई इक्की आयत नीं बोलदी "उत्पत्ति 16 च प्रभु दा दूत यीशु ही है।" एह सिट्ठा यूहन्ना 1:18, यूहन्ना 5:37, ते 1 तीमुथियुस 6:16 गी पुराना नियम दे बयानां कन्नै कन्नै रखी ते पुच्छी कि कुण दिखेआ जा करदा था, तां पुज्जेआ जांदा है। इसी लेई टैग उत्यै है, ते टैग उत्यै ही रौहदा।)

B8. ते संदेशवाहक-जो-प्रभु-है फिरी पुराणे नियम-नामे दे बिल्कुल आखरी च फिरी दिखा दिन्दा है

Malachi 3:1

मियां अपना संदेशवाहक भेजणा --> से मेरे अगें राह त्यार करग --> प्रभु अचानक अपने मंदरे च आयेग, हां, सेह वाचा दा संदेशवाहक।

बख्खरा नजरिया, ओहीई द्रिश्य — संदेशवाहक दा वादा कीता गेआ, ते संदेशवाहक पिछाणेआ गेआ

मरकुस 1:2 (बड़े पेड़ले) यशायाह नेबे अपनि किताबी मां लिखोरू थियुं कि, (परमेशरे अपने मट्ठे सेइं ज़ोवं,) “शुन, अवं अपनो बिस्तार देनेबालो तीं केरां पेड़ले भेजेलो।” “तै तीं केरां पेड़लो गेइतां तेरे लेइ बत तियार केरेलो। (यानी, लोकां केरे दिल परमेशरे लेइ तियार केरेलो)” (3) “तै बिस्तार देनेबालो सुनसान ठैरी मां लोकन, जैना तैस कां गाले, तैन हक देइतां ज़ोलो कि ‘तुसन कां प्रभु एजनेबालो आए, एल्हेरेलेइ तुस तैसेरेलेइ बत तियार केरा त कने तैसेरेलेइ सड़कां सिद्धी केरा।’ (यानी, प्रभुऐरे लेइ तुस अपने दिल साफ केरा)” (4) ज़ेन्चरां लिखोरू थियुं, अक बिस्तार देनेबालो अव। तैस मैनेरू नवं यूहन्ना थियुं। लोक तैस जो बपतिस्मो देनेबालो भी ज़ोते थिये। तै यहूदिया इलाकेरे सुनसान ठैरी मां अव। तैड़ी तै लोकन परमेशररी गल्लां शुनातो थियो कि, “तुस अपने पापन करां मनफिराथ, त कने बपतिस्मो नेथ, ताके परमेशर तुश्शे पाप माफ़ केरे।”

दिखो, मे अपने संदेशवाहके गी तेरे मूहों अगो भेजदा --> प्रभुए दा राह त्यार करो।

(मेरे निजी विचार: मलाकी 3:1 च एककी श्लोक च दुइयाँ भेजे गेयां जणें दे नां दिते न। एक भेजेया जणा अगो जाई करी राह साफ करदा ऐ। दूई भेजेया जणा "प्रभु" ते "नेम दा दूत" आखेआ जांदा ऐ। ऐ दूई भेजेया जणा ओ ऐ जेहड़ा प्रभु दे अपने मंदर मा औंदा ऐ। मरकुस अपनी सुसमाचार दी शुरुआत मलाकी 3:1

दी इसी पंगती जो हवाला देइयां करदा ऐ। मरकुस राह साफ करने आले जो युहन्ना आखदा ऐ, जंगल मां। इस कन्नै दूया भेजेया जणा उस जगह मरकुस दुआरा बिना नां दिते रेइ जांदा ऐ। पुराना नेम इक ऐसे दूत दी उडीक च खत्म होंदा ऐ जेहड़ा प्रभु ऐ। नमां नेम उसी दूत दे तुरी करी आणे कन्नै शुरू होंदा ऐ।)

C. लकड़ी जो सिर्फ पुत्तर पर रखी गई — अब्राहाम कने इसहाक पहाड़े पर

C1. Genesis 22:2

हुण अपणे पुत्तरे, अपणे इक्को पुत्तर इसहाक जिसगी तू प्यार करदा, लेई जा --> ओथु उसगी होमबलि दे रूपे च चढ़ा दे।

C2. Genesis 22:6

अब्राहमे होम-बलि आहला लकड़ी लयी ते आपणे पुत्र इसहाक पर रखी --> दोरी गो इक्कठे गे।

(मेरे निजी विचार: उत्पत्ति 22:6 ब्र बाबे लकड़ी नि चुकदा। इसहाक पहाड़िया पर लकड़ी चुकदा। अब्राहम इसहाक गी उसी लकड़िया पर धरगा। उस लकड़िया आस्तै हिब्रू शब्द *ets* (H6086) ऐ। *Ets* एक जींदे रुखे आस्तै आम शब्द ऐ। *Ets* कट्टी लकड़िया आस्तै बी आम शब्द ऐ। *Ets* उसी शब्द ऐ जो जीवने दे रुखे आस्तै बरतेआ गेदा। *Ets* उसी शब्द ऐ जो बगीचे दे बिच्चोबिच्च दे रुखे आस्तै बरतेआ गेदा।)

C3. Genesis 22:7

होमबलि आस्तै लेला कित्थे ऐ? --> परमेश्वर आपू लेला दिग।

C4. Genesis 22:13

इक मेंढा जेहदे सिंग झाड़िया च फसे होए थे --> ओहू अपने पुत्तर दी जगह होम बलि आस्तै चढ़ाया।

Genesis 22:14

प्रभु दे पहाड़े पर एह दिखेआ जाणा ऐ।

(मेरे निजी विचार: पुत्र दा सवाल फिरी सोचा उत्पत्ति 22:7 च: छैल्ला कठे ऐ? अब्राहम इस सवाल दा जवाब दिन्दा। अब्राहमा दा जवाब ओहदे जाणने कनै बी अगो तरंग पुज्जदा। अब्राहम बोलदा, "परमेश्वर अपू आस्तै होमबलि आस्तै छैल्ला देगा।" इस वाक्य दे दो मतलब होई सकदे न। इक मतलब ऐ जे परमेश्वर अपने इस्तेमाल आस्तै छैल्ला लोंगा। दूसर मतलब ऐ जे परमेश्वर अपू आपणे आपै छैल्ले दे रूप च देगा। उस दिन परमेश्वरा असल च जो दित्ता ओहभा भेड़ (मेढा) था, छैल्ला नी। भेड़ा इक पूरी उम्रा दा नर भेड़ होंदा ऐ। एह भेड़ा पुत्रे दी जगहा मरी गा, सींगें कन्नै फसोई करिये। इसहाके दा सवाल इक अर्था च पहाड़ा उप्पर जवाब पाई जांदा ऐ। इसहाके दा सवाल दूसर अर्था च खुल्ला बी रहंदा ऐ। इक छैल्ला हाल्ली बी बाकी ऐ। अब्राहम उस जगहा दा नां भविष्य काल दे वादे कन्नै रखदा ऐ: "यहोवा दे पहाड़े उप्पर एह दिखेआ जागा।")

बरखरा नजरिया, हियोई दृश्य — जिस पुत्तरे लकड़ी चुक्की, ते जिस पुत्तरे सूली चुक्की

Genesis 22:6

अब्राहमे लकड़ी अपणे पुत्तर इसहाक पर रखी --> दोनों गिच्च साथे तुरे।

यूहन्ना 19:17 यीशु अपनू क्रूस छुइतां खोपड़ी जो चलो जैस जो इब्रानी मां गुलगुता ज़ोतन।

उनी अपणा क्रूस चुकी करी खोपड़ी दिया जगहा जो गया।

यूहन्ना 19:18 तैड़ी तैनेई यीशु ते तैस सेइं साथी दूई डैकू भी क्रूसे पुड़ चढ़ाओ, अक तैसेरे देइने पासे होरो बांए पासे ते यीशु मझाटे।

ओत्थें तिन्हां तेसजो सूली उप्पर चढ़ाया + यीशु बिच्चाळे।

(मेरे निजी विचार: इक पिता, इक इकलौता पुत्र जिसते पिता प्यार करदा, इक पहाड़, पुत्रे दिया अपणी पिठा पर लकड़ी रखी गई, ते पुत्र उस लकड़िया थल्ले चढ़दा। एह दृश्य बाइबले च दो बारी होया। पैह्ली बारी, उत्पत्ति 22 च, परमेश्वरे छुरी रोकी दिती। परमेश्वरे पुत्रे दी जगह इक बदला मेढा रखेया। दूसरी बारी, क्रूसे पर, कुसै मौत नि रोकी। इस बारी, पुत्र आपू बदला बणेया। दोनू दृश्यां बिच्च इक होर फर्क ध्यान देओ। इसहाके पुच्छेया, "मेढा कित्थे ऐ?" उस दिन इसहाके सवाल दा कोई जवाब नि मिलेया। जवाब बाढ़े च, यरदन नदिया पर, यूहन्ना कोला आया। यूहन्नें इक मनुक्खा पासे इशारा कीता जेहड़ा उसदे पासे तुरदा आंदा हा।)

C5. यूहन्ना 1:29 एग्री दिहाड़े यूहन्ने यीशु अपने पासे एइतो लाव, त तैनी यीशुएरे बारे मां लोकन सेइं ज़ोवं, "तक्का, परमेश्वरे तरफां भेजोरू (बलिदानेरू) गबडू, जैन सैरी दुनियारे लोकां केरे पाप नेते।

तक्का, परमेश्वरे तरफां भेजोरू (बलिदानेरू) गबडू, जैन सैरी दुनियारे लोकां केरे पाप नेते।

C6. Genesis 22:2

यूहन्ना 3:16 "किजोकि परमेश्वरे दुनियारे लोकन सेइं एत्रो प्यार कियो कि तैनी अपनू अक्के मट्टू दित्तू, ताके जै कोई तैस पुड़ विश्वास केरे, तै नाश न भोए, बल्के हमेशारी ज़िन्दगी हासिल केरे। [G3439 monogenes ■]

तेरा इक्को पुत्तर, जिसते तूं प्यार करदा --> उसने अपणा इक्को जनम्या पुत्तर दित्ता।

C7. इब्रानियों 11:17 विश्वासे सेइं अब्राहमे अपने इम्तिहानेरे मौके अपने मट्टे इसहाकेरू बलिदान देने करां न टलो, जैन तैस परमेश्वरेरे वादे कबूल करने बद मैलोरो थियूं, तैस्से अकैल्ले मट्टे बलिदान करने जो तियार भोइ जेव। (18) हालांकी परमेश्वरे तैस सेइं ज़ोरू थियूं, "कि इसहाकेरे वंशे सेइं तेरे वंशेरू नवं रालू।" (19) किजोकि अब्राहमे याकीन थियूं, कि परमेश्वरे कां मुड़दन जींते केरनेरी शक्ति आए, एल्हेरेलेइ लेइ जेन्नेरे परमेश्वरे इसहाक मुड़दन मरां फिरी वापस आनो।

उसनै अपणे इकलौते पुत्तरे गी चढ़ाया --> ऐ मन्नदे होई जे परमेश्वर उसगी मरयां चा भी जियाणे च समर्थ था।

(मेरे निजी विचार: इब्रानियों की किताब दा लिखणे आळा उएई यूनानी शब्द इसहाक आस्तै बरतदा ऐ जेहड़ा यूहन्ना यीशु आस्तै बरतदा ऐ। एह शब्द ऐ "इकलौता", मोनोजेनेस (G3439)। इब्रानियों दा लिखणे आळा साढ़े ने दस्सदा ऐ जे अब्राहम पहाड़ा पर चढ़दे बगत की सोचा करदा हा। अब्राहम एह सोचा करदा हा जे परमेश्वर मुंडे गी मुड़ी थमां जिआई सकदा ऐ। अब्राहमे पहाड़ा दे थल्ले जवानां गी बोलेआ, "मैं ते मुंडा उत्तै जास्सी ते भगती करी, फिरी तुसां गे मुड़ी आस्सी।" अब्राहम इसहाक कन्नै मुड़ी पहाड़ा थल्ले औणे दी उम्मीद करदा हा। इब्रानियों दे लिखणे आळा बोलदा ऐ जे अब्राहमे इसहाक "इक चित्रा च" मुड़ी हासल कीता। इत्तै चित्र दा मतलब इक तस्वीर या इक निशान ऐ। हुक्म दे तिन्न दिनां बाद, इक मुंडा जेहड़ा मरने जिहना बणी गेआ हा, जीन्दा मुड़ी आया।)

जगहा पर इक टिप्पणी — इक सहायक टिप्पणी, ना कि आयतां दा सीधा दावा

2 Chronicles 3:1

सुलेमाने यरूशलेमे च मोरियाह पहाड़े पर यहोवा रा घर बणाना शुरू कीता।

[उम्मे नेहे राखे — एह एी उम्मे एह गॉलु अल्लेग उँर पर नष्टीं घेलली]

(म्हारे निजी विचार: उत्पत्ति 22:2 च सैई जागा जो परमेश्वरे अब्राहमे गी भेजेया था, मोरियाह दे देशे दे नामे कन्नै दस्सी। 2 इतिहास 3:1 च सैई जागा जित्तै सुलेमाने मन्दर बनाया, मोरियाह पहाड़े दे नामे कन्नै दस्सी, यरूशलेमे च। इसहाके गी बलिदान करने आहली पहाड़ी ते बाद च हर मन्दरे दी बलिदाने आहली पहाड़ी दा इक्को नाम है। यरूशलेमे बी सैई शहर है जित्तै सिपाहियें यीशुए गी शहरे दी कन्ध ते बाहर सूली उपपर चढ़ाया। सिर्फ सै गल्ल बोलो जड़ी आयतां बोलदियां न। आयतां ऐ नि बोलदियां जे गोलगोथा ते मोरियाह इक्को चढ़ान थी। आयतां ऐ बोलदियां न जे नाम इक्को है, पहाड़ियें दी लड़ी इक्की है, ते शहर बी इक्को है। अब्राहमे अपने आपे ऐ लफज बोले "यहोवा दे पहाड़े उपपर ऐ दिक्खेया जाणा।" अब्राहमे ऐ लफज भविष्य काले च बोले।)

समापन

यूहन्ना 8:56 तुश्शो पूर्वज अब्राहम मेरी दिहाड़ी हेरनेरे उमीदी पुड़ बड़ी खुश थियो, ते तैनी हेरी, ते खुश भोव।" (57) यहूदेई तैस्से सेइं ज़ोवं, "हेजू तू 50 साला केरो भी नई भोरो फिरी भी तीं अब्राहम लोरोए?" (58) यीशुए तैन सेइं ज़ोवं, "अवं तुसन सेइं सच्च-सच्च ज़ोताई कि अब्राहम पैदा भोने करां पेइलो, अवं आई।" (59) तैखन तैनेई तैस मारनेरे लेइ घोड़ सल्ले, पन यीशु छेपतां मन्दरे मरां निस्सी जेव।

अब्राहम थमां पैहले, मैं आं --> तेब्बे उन्हां पथर चुक्के उसदे पर सिट्ठणे तांई.

(मेरे निजी विचार: इन दो दृश्यें गी नाल-नाल रख्खा ते फर्क सिखाणे दिओ। झाड़िया कोल, अगि चा आवा आवाज़ा च आखदा है, मैं ही हूं। मूसा झाड़िया कोल अपना मूं लुकाओँदा। मंदरा च, इक मैंह भीड़ा दे अगो खड़ोई करी आखदा है, मैं ही हूं। भीड़ा पथर चुक्की लैदी। भीड़ा गी येस दा बोलेआ कुछ भी उलझन नि थी। भीड़ा येस गी पूरी तरह समझी लेआ था। भीड़ा येसुआ दे बोला गी पथर मारने जोगा जाणेआ। इसदे नाल एह बी दिक्खा जे येसुए एह नि आखेआ जे अब्राहमे थमां पैहले, मैं थां। येसुए आखेआ, मैं ही हूं।)

अभ्यास प्रश्नोत्तरी

1. उत्पत्ति 1:26 — कने परमेश्वरे बोलेआ, आओ असां अपणे रूपे च मनुक्ख बणाचै:

- असां दी सूरती जनेह
- दिख्खो, ओह बड़ा अच्छा था
- परमेश्वरे अपणे स्वरूपे च उसजो बणाया

2. उत्पत्ति 16:13 — ते उसे यहोवा दा नां रख्खा जिन्हे उसदे सेआ गल्ल कीती:

- तूं परमेश्वर मन्नू दिखदा है
- मैं परमेश्वर गी आमने-सामने दिट्ठा है
- मैं इत्तै आं; मन्नू भेज

3. निर्गमन 3:14 — ते परमेश्वरे मूसा जो आखा:

- मैं तेरे पिता दा परमेश्वर आं
- मैं आं जो मैं आं
- मैं ई परमेश्वर आं, ते होर कोई नि ऐ

4. यूहन्ना 8:58 — यीशुए उन्हां जो बोल्या, सच्च-सच्च, मैं तुसां जो आखदा हां:

- तेरे पिता अब्राहम मेरा दिन देखने खातर खुश होया
- अब्राहम दे होने थमां पैहले, मैं आं
- किसी माणुए कदी परमेश्वरगी नि दिख्खा

5. न्यायियां 13:22 — तेते मानोहएे अपणी घरवालिये जो बोल्या, असां जरूर मरना है:

- चा मैं अशुद्ध ओठें आळा मनुष्य आं

- b) कजो जे जिस जगह पर तू खड़ोता हैं ओह पवित्र जमीन ऐ
- c) कीजकि असां परमेश्वर जो दिखेया

6. यहोशू 5:15 — तेते प्रभु दी सेना दे सरदारऐ यहोशू जो बोल्या:

- a) अपने पैरां थमां अपणा जुता खोल्ल
- b) की तूं असां आस्तै ऐं, या असाड़े दुशमना आस्तै?
- c) अपनी मालकिनी कू वापस जा

7. उत्पत्ति 22:8 — परमेश्वर अपने आपे लेई होमबलि आस्तै भेड़ु दा बच्चा देआगा:

- a) कने ओह अपने पुत्र इसहाक उप्पर रख्खी
- b) तां सै दुएँ गड्डी टुरे
- c) दिखवो अग कने लकड़

जवाब कुंजी: 1-a, 2-a, 3-b, 4-b, 5-c, 6-a, 7-b

इह अध्ययन कठे-कठे बंडा ऐ

एकू छाया कन्नै चानण गी दस्सदी ऐ: इसहाक दे पिठे उप्पर रख्खी लकड़ (उत्पत्ति 22:6) कने पुत्र दे पिठे उप्पर रख्खी सूली (यूहन्ना 19:17)। छाया पहाड़े उप्पर दिख्खी गेई। शरीर नगरे थमां बाहर दिख्खेआ गेआ।

--> रब्बिट ट्रेल: उत्पत्ति 1:26 दा "असां" ते "म्हाड़ा", व्यवस्थाविवरण 6:4 दे "इक प्रभु" कन्नै रलाइयै, गॉडहेड दे पूरे अध्ययन खोलदा ऐ। गॉडहेड इक परमेश्वर ऐ, जिस च पिता, पुत्र, ते पवित्र आत्मा सारी बाइबल च अलग-अलग व्यक्तियां दे रूप च नामजद ऐन। इस अध्ययन ने सिर्फ उस पूरे अध्ययन दा किनारा ही छुह्ला।

--> संभवत: प्रकाशन: याकूब हे GENESIS 32 च मल्ल गी अपना नां पुच्छा ते ओहनूं नकारा गेआ (GENESIS 32:29)। मानोह हे यहोवा दे स्वर्गदूत गी अपना नां पुच्छा ते ओहनूं आखा गेआ कि नां "पिली" (H6383) ऐ, जेहड़ा जानने आस्तै बड़ा अद्भुत ऐ (न्यायियों 13:18)। यशायाह फिरी आखदा ऐ जे साढ़े आस्तै जन्मे बच्चे गी "अद्भुत," पेले (H6382), उस्सी मूल शब्द थमां "सद्दा" जाग (यशायाह 9:6)। जेहड़ा नां पुराने नियम च रोका गेआ हा, ओह इक बच्चे उप्पर घोषित कीता जांदा ऐ। बाइबल दे आखिर च, स्वर्ग थमां बाहर सवार होइयै औंदा, यीशु दे कोल हलेय बी इक नां ऐ जेहड़ा कोई नई जाणदा सिवाय ओहदे आपने (प्रकाशितवाक्य 19:12)। नां दित्ता गेआ ऐ, ते ओह नां हलेय बी इस अध्ययन च दस्से गेदे थमां जेह्ला गहरा ऐ।

ग्रीक कीवर्ड

“इक्को जनमेआ” — **G3439 monogenes** — सिर्फ जनमेआ; अपणी किस्मा दा इक्को; अपणी किस्मा दा इक्को ही *Monogenes* पुत्रे आस्तै बरतेआ गेआ ऐ। इब्रानियां 11:17 च *Monogenes* इसहाके आस्तै बी बरतेआ गेआ ऐ।

“घोषित किता” — **G1834 exegeomai** — बाहर लेई जाणा; बाहर आणा; पूरी तरहां दस्सणा; जाणू करवाणा कुसे इक्के परमेश्वरे जो नि दिख्खा। इक्को जन्मेआ पुत्रे परमेश्वरे जो खुल्ले च लेई आन्दा जित्थू सै दिख्खा जाई सकदा।

हिब्रू मुख्य शब्द

“दूत / संदेशवाहक” — **H4397 malak** — भेजेआ गेआ; संदेशवाहक; दूत

एह शब्द इक कम्म दा नां दिन्दा ऐ, सुभाव दा नी। एह शब्द मर्दा लेई इस्तेमाल होंदा ऐ। एह शब्द नबियां लेई इस्तेमाल होंदा ऐ। एह शब्द स्वर्गीय जीवां लेई इस्तेमाल होंदा ऐ। एह शब्द अपने आपे च कदी नी बताँदा जे भेजे गेए बंदे दी असलियत की ऐ। एह शब्द अपने आपे च सिर्फ एह बताँदा ऐ जे कोई बंदा भेजा गेआ। आसपास दा बाइबली पाठ बाकी गल्ल बताँदा ऐ। आसपास दा बाइबली पाठ इन्हां घटनावां च बाकी गल्ल असल च बताँदा ऐ।

“परमेश्वर” — **H430 elohim** — परमेश्वर; देवते; सच्चा परमेश्वर

एलोहीम इक बहुवचन रूप ऐ। एलोहीम शब्द बार-बार इको सच्चे परमेश्वरे बासते इकवचन क्रियाएं गे कठे बरतेआ गेआ ऐ। ऐ शब्द अपने आपे च वा पूर्णता समोआं करदा ऐ जिसा गी ऐ अध्ययन जाँच करा दा ऐ।

“इक” — **H259 echad** — इक; मिल्लेआ होया; पैहला

एकद (Echad) ओह शब्द ऐ जेहड़ा “यहोवा म्हारा परमेश्वर इक ही यहोवा ऐ” च आया ऐ। एकद ओहही शब्द ऐ जेहड़ा संझ ते सवेर गी इक्क दिन आखने आस्तै बरतेआ गेआ ऐ। एकद ओहही शब्द ऐ जेहड़ा माणुह ते उसदी घरवाली गी इक्क शरीर बनने आस्तै बरतेआ गेआ ऐ।

“इक्को पुत्र” — **H3173 yachiyd** — इकल्ला; सिर्फ इक; अकेला; प्यारा

उत्पत्ति 22 च इसहाक जो “तेरा इक्को पुत्र” त्रै बारी बोलेआ गा। यचीद दा मतलब हुन्दा इक्को कने इक्को ही।

“लकड़ी / रुख” — **H6086 ets** — बूट; लकड़ी; इमारती लकड़ी; तख्ता; डांगडू

एट्स एक इब्रानी शब्द ऐ जेहड़ा जीदे रुखे ते कट्टे लकड़ दोनों गी शामिल करदा ऐ। एट्स ओह शब्द ऐ जेहड़ा अब्राहमे इसहाके उप्पर रख्खे लकड़ आस्तै बरतेआ।

“गुप्त / अद्भुत” — **H6383 piliy** — अद्भुत; इतणा अद्भुत जे जाणेआ नि सकदा
पिलीय से शब्द ऐ जेहड़ा प्रभुए दा दूत मानोहे गी अपने नांS गी बताणे आस्तै दिन्दा ऐ। पिलीय यशायाह 9:6 च आयां पेले शब्दे दे गी ई जड़हा थमां
आया ऐ।

“सरदार / राजकुमार” — **H8269 sar** — इक मुखिया बंदा; इक सरदार; इक कप्तान; इक राजकुमार; इक शासक
सार उ पदवी ऐ जिसदा दावा तलवार कट्टी बड़ी बंदे ने यरीहो शैहरे बाहर कीता.

“मैं हूँ” — **H1961 hayah** — होणा; अस्तित्व च होणा; बनणा
हयाह जलदी झाड़ी बिच “मैं जो मैं आं” दे हेठ मूल शब्द ऐ।

SOURCES & CREDITS

Scripture: Bhadrawahi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0);

Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).